

# COVID-19 से लड़ने में आप क्या कर सकते हैं

## परीक्षण




अपनी स्थिति  
जानें। COVID-19  
और एंटीबॉडी  
परीक्षण मुफ्त में  
करवाएं।

## ट्रेस करना



अपने समुदाय  
में COVID-19  
का प्रसार रोकने  
में मदद करने के  
लिए हमारे संपर्क  
खोज कर्मियों के  
कॉल का उत्तर दें।

## देखभाल करना



दूसरों को बचाने  
के लिए सुरक्षित  
रूप से अलग रहें  
और किसी होटल  
या घर में अपनी  
देखभाल करें।

NYC Test & Trace Corps आपकी व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें प्राप्त सारी जानकारी न्यूयॉर्क शहर स्वास्थ्य संहिता के अंतर्गत गोपनीय एवं संरक्षित है। Test & Trace Corps किसी की भी आप्रवास स्थिति के बारे में नहीं पूछेगा।

**NYC**  
**HEALTH+**  
**HOSPITALS**

**Test & Trace**  
**Corps**

# खुद को और अपने प्रियजनों को COVID-19 से बचाने के लिए अपनी देखभाल करें।

किसी होटल के मुफ्त निजी कमरे में सुरक्षित रूप से अलग रहें।

यदि आपमें COVID-19 पाया गया है या आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में थे जिसकी जाँच का परिणाम सकारात्मक था, तो आप अपने प्रियजनों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी अलगाव अवधि के दौरान मुफ्त होटल का कमरा पा सकते हैं।

देखभाल वाले होटल सुरक्षित, आरामदेह और सुविधाजनक हैं। सभी सेवाएं मुफ्त हैं। बच्चों का स्वागत है।

यदि आप किसी देखभाल वाले होटल में अलग रहना चुनते हैं तो इससे आपको प्राप्त अन्य लाभ प्रभावित नहीं होंगे। देखभाल वाले होटलों से आपकी स्थायी आवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा, COVID-19 से संबंधित चिकित्सा उपचार या रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर सार्वजनिक शुल्क नियम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

किसी देखभाल वाले होटल में निम्नलिखित सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं:

- होटल तक आने-जाने के लिए परिवहन और कोई आवश्यक चिकित्सा मुलाकातें
- निजी कमरे एवं स्नानघर
- वहीं पर COVID-19 परीक्षण की उपलब्धता
- मुफ्त Wi-Fi और केबल TV
- निरंतर संपर्क में रहने के लिए असीमित स्थानीय फोन कॉल
- रोज का नाश्ता, दिन का भोजन एवं रात का भोजन\*
- दुभाषिया सेवाएं
- दवाओं की आपूर्ति
- कुशल डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा साइट पर स्वास्थ्य देखभाल सहायता उपलब्ध
- विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंच पाने के लिए टेलिसायकियाट्री



अपना कमरा आज ही बुक करें।

1-212-COVID19

(1-212-268-4319)

पर कॉल करें या [testandtrace.nyc](https://testandtrace.nyc) देखें

NYC  
HEALTH+  
HOSPITALS

Test & Trace  
Corps

\*भोजन आहार की जरूरतों के अनुसार बनाया जाएगा